



HINDI NOTES FOR JANUARY (2024-25)

STANDARD : VI

PORTIONS: II LANG HINDI

पाठ :12. सारस की आत्मकथा

अनुच्छेद : पोंगल

गिनती : 76 से 100

पत्र लेखन

संवाद लेखन : फलवाला और ग्राहक के बीच बातचीत

चित्र वर्णन (General)

PORTIONS: III LANG HINDI

पाठ :12. सारस की आत्मकथा

अनुच्छेद : पोंगल

गिनती : 76 से 100

NOTES: सारस की आत्मकथा

I शब्दार्थ word meaning

1. यात्रा - एक स्थान से दूसरे स्थान जाना - travel
2. मुखिया - प्रधान - chief
3. बाधाएँ - अड़चन - obstacles
4. महावत - हाथीतान - elephant driver
5. प्रदेश - दूसरा देश - foreign land
6. नौजवान - नवंबर युवा - young
7. अपाहिज - अपंग - incapacitated
8. कोलाहल - शोर - uproar
9. दुर्भाग्य - बुरा भाग्य - misfortune
10. आशा - उम्मीद - hope

II " सही " या " गलत "

क) सारस भारत से चीन तक की दूरी तय करते हैं । उत्तर: गलत

ख) सारस बताता है कि वह वर्षों से यहाँ आ रहा है । उत्तर: सही

ग) सारस हर रोज़ अपने पिता से मिलने जाता था । उत्तर: सही

घ) एक बच्चे ने सारस के पिता को गुलेल से घायल किया था । उत्तर: सही

III वाक्य पूरे कीजिए :

- क) एक बार की बात है पिता अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक झील में तैर रहे थे ।
ख) डॉक्टर ने मरहम पट्टी की और पिता को वहीं आराम करने के लिए रख लिया ।
ग) जाने का और पिता से विदा लेन का दिन आ गया ।
घ) भगवान से मनाता कि जल्दी ही मौसम बदले और मैं उड़कर पिता के पास पहुँच जाऊँ ।

IV वाक्यों को उनके घटनाक्रम के अनुसार लगाइए :

उत्तर:क) पिता अपने साथियों को सब बताते चलते ।

2

उत्तर:ख) उस रात लौटकर मैं रोता रहा ।

3

उत्तर:ग) साइबेरिया से यहाँ तक आने में लंबी यात्रा करनी पड़ती ।

1

उत्तर: घ) मैं उन सबके बीच अपने पिता को खोज रहा था ।

4

V किसने, किससे कहा ?

कथन

किसने कहा

किससे कहा

- | | | |
|--|---------------|------------------|
| क) वैसे भी अब यहाँ गरमी बढ़ रही है । | दूसरे सारस ने | बुजुर्ग सारस से |
| ख) पिता क्यों नहीं आए ? | पुत्र सारस ने | सब सारसों से |
| ग) तो वह सबको बहुत याद करते थे ? | बूढ़ी दादी ने | पुत्र सारस से |
| घ) वैसे भी रास्ते में शिकारियों का खतरा है । डॉक्टर ने | | बुजुर्ग सारसो से |

VI चित्र से संबंधित वाक्यों को लिखिए :

क) लड़का साइकिल **सुबह** चलाता है ।

ख) लड़का साइकिल **यहाँ** चलाता है ।

ग) लड़का साइकिल **बहुत** चलाता है ।

घ) लड़का साइकिल **धीरे** चलाता है ।

VII लिंग बदलकर लिखिए :

- क) हिरन - हिरन
ख) हाथी - हथिनी
ग) पिता - माता
घ) बहन - भाई
ङ) दादी - दादा
च) बच्चा - बच्ची

VIII अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द दोबारा लिखिए :

उत्तर: क) सुंदर ख) यहाँ ग) कहाँ घ) लंबी ङ) ऊँची च) पंख

IX वाक्यों को आपस में मिलाइए:

उत्तर: क) I am a beautiful stork

ख) The pond is full of clean water.

ग) I reach out to my father crying.

घ) No, you don't do that .

X शब्द- पहेली में से जलीय जीवों के नाम ढूँढ़कर लिखिए :

क) समुद्री घोड़ा ख) कछुआ ग) जेलीफिश घ) हेल ङ) स्टारफिश च) मछली

XI मौखिक प्रश्नोत्तर:

क) सारस अपना देश छोड़कर भारत क्यों आते थे ?

उत्तर : मौसम बदलने के कारण सारस अपना देश छोड़कर भारत आते थे ।

ख) एक नौजवान सारस ने झील में इनसानों के आने पर रोक लगाने को क्यों कहा ?

उत्तर : एक शरारती बच्चे ने अपनी गुलेल से झील में तैरते मुखिया सारस को घायल कर दिया था ,

इसलिए नौजवान सारस ने झील में इनसानों के आने पर रोक लगाने को कहा ।

XII लिखित प्रश्नोत्तर :

बच्चे की गुलेल से सारस के पिता की क्या हालत हुई ?

उत्तर : बच्चे की गुलेल से सारस के पिता को गहरी चोट लगी थी । वे तड़पकर

क) सारस ने अस्पताल में कौन- कौन से जानवर कैसी स्थिति में देखे ?

उत्तर : सारस ने अस्पताल में हाथी , हिरन , गाय , चील और गौरैया को देखा । सभी जानवर घायल थे।

ख) अपने पिता के पास से लौटने के बाद सारस रात भर क्यों रोता रहा ?

उत्तर : सारस के पिता ने सबको वापस अपने देश लौट जाने को कहा था , लेकिन उनमें अभी उड़ने लायक

ताकत नहीं थीं । वे सारसों के साथ नहीं जा सकते थे , इसलिए सारस रात भर रोता रहा ।

अनुच्छेद : पोंगल

1. पोंगल दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है ।

2. यह त्योहार चार दिन तक मनाते हैं।

3. पहले दिन ' बोगी ' मनाते हैं । घर की सफाई करते हैं और पुराने चीजों को जला देते हैं ।

4. दूसरे दिन तई पोंगल मनाते हैं ।

5. भगवान सूर्य को चावल और गुड़ से मिष्ठान बनाकर चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं ।

6. तीसरे दिन मट्टू पोंगल मनाते हैं । बैल – गायों की पूजा होती है ।

7. चौथे दिन कानुम पोंगल मनाते हैं । इस दिन सभी लोग एक – दूसरे से मिलते हैं और उपहार भी देते हैं ।

8. यह एकता का त्योहार है ।

गिनती : 76 से 100

76 - छिहत्तर

83 - तिरासी

90 - नब्बे

97 - सत्तानवे

77 - सतहत्तर

84 - चौरासी

91 - इक्यानवे

98 - अठ्ठानवे

78 - अठहत्तर

85 - पचासी

92 - बानवे

99 - निन्यानवे

79 - उन्यासी

86 - छियासी

93 - तिरानवे

100 - सौ (एक सौ)

80 - अस्सी

87 - सत्तासी

94 - चौरानवे

81 – इक्यासी

88 - अट्ठासी

95 - पंचानवे

82 – बयासी

89 - नवासी

96 - छियानवे

पत्र लेखन :

बीमार के कारण छुट्टी मांगते हुए एक पत्र

सेवा में

प्रधानाचार्य

पोन विद्याश्रम स्कूल

चेन्नई - 600087

दिनांक – 8.1.2025

विषय – दो दिन की छुट्टी की माँग हेतु ।

आदरणीय प्रधानाचार्य

सविनय निवेदन यह है कि मुझे दो दिन से सख्त बुखार और जुकाम है , अतः आपसे निवेदन करता / करती हूँ कि मुझे (8.1.2025 से 9.1.2025) दो दिन की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें ।

इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा / रहूँगी ।

धन्यवाद

आपका विश्वासी छात्र / छात्रा

क . ख . ग

(छठवी कक्षा ' डी ' वर्ग)

संवाद लेखन : फलवाला और ग्राहक के बीच बातचीत :

फलवाला : आइए , आइए ताज़े और स्वादिष्ट फल खरीदए ।

ग्राहक : फलों के दाम कैसे है भाई ?

फलवाला : एक किलो आम 100 रुपए , सेब 150 रुपए और अनार 200 रुपए ।

ग्राहक: अरे! दाम तो बहुत अधिक है थोड़ा कम कर दीजिए ना ।

फलवाला : कम कर दूँगा साहब , पहले आप फल खरीदए ।

ग्राहक: ठीक है, आप मुझे तीनों फल 1-1 किलो दे दीजिए ।

फलवाला : अभी देता हूँ साहब ।

ग्राहक: कुल मिलाकर कितने पैसे हुए ?

फलवाला : 400 रुपए दीजिए और 50 रुपए मैंने कम कर दिए है ।

ग्राहक: बहुत धन्यवाद ।

FOR III LANGUAGE LIKHIT QUESTION ANSWERS WILL BE EXCLUDED.

-----*****-----